

बिहार सरकार
वित्त (अंकेक्षण) विभाग
बिहार पटना

अंकेक्षण प्रतिवेदन संख्या :- 28/11-12

(1) परिचयात्मक :-

(क) अंकेक्षित लेखा का नाम - जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान फुलवारीशरीफ, पटना।

(ख) अंकेक्षणान्तर्गत लेखावधि - वर्ष 2008-09

(ग) प्रशासी विभाग का नाम - जल संसाधन विभाग बिहार, पटना।

(घ) अंकेक्षण अवधि के नियंत्री पदाधिकारियों

के नाम, पदनाम एवं कार्यकाल :-

1. श्री नारायण प्रसाद निदेशक (मु0 अभि0) वाल्मी पटना।
1.04.2008 से 30.11.2008
2. श्री राम विलास चौधरी—निदेशक (मु0 अभि0) वाल्मी पटना। 30.11.2008 से 29.6.09

(ङ) अंकेक्षणावधि में लेखा के प्रभारी पदाधिकारियों

एवं कर्मचारियों के नाम एवं पदनाम एवं कार्यकाल—

1. श्री विष्णु कान्त झा—रीडर भूगर्भ जल विज्ञान सह निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, वाल्मी, पटना।
दिनांक 7.8.2007 से 22.5.2008
2. श्री अजित विक्रम—रीडर भूगर्भ जल विज्ञान सह निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, वाल्मी, पटना।
दिनांक 22.5.2008 से 6.7.2009
3. श्री उमाकान्त झा लेखा पदाधिकारी (08-09)
4. श्री मनीष कुमार रोकड़ पाल (08-09)
5. श्री धीरेन्द्र कुमार लेखा लिपिक (08-09)
6. श्री कान्त वर्मा वरीय लेखा लिपिक (08-09)
7. श्री अरविन्द कुमार निम्न वर्गीय लेखा लिपिक (08-09)

(च) अंकेक्षण में सहयोग देनेवाले पदाधिकारी एवं

कर्मचारियों के नाम एवं पदनाम :- 1. श्री मनीष कुमार रोकड़पाल

2. श्री कान्त वर्मा वरीय लेखा लिपिक

(छ) वरीय अंकेक्षकों के नाम :-

1. श्री अवध किशोर सिंह, वरीय अंकेक्षक-2

2. श्री संजय कुमार, वरीय अंकेक्षक -2

(ज) अंकेक्षण प्रारम्भण तिथि -

4.1.2011

(झ) अंकेक्षण समापन तिथि -

15.06.2011

(ञ) अंकेक्षण में व्यतीत कार्य दिवस -

75 कार्य दिवस

(ट) अंकेक्षण में प्रस्तुत एवं अप्रस्तुत अभिलेखों की सूची :-

अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिशिष्ट 'क' पर संलग्न है।

(2) अंकेक्षण का क्षेत्र -

(1) अंकेक्षण का प्रकार - सामान्य

(2) वित्त (अंकेक्षण) विभाग का आदेश संख्या एवं तिथि - 3286 दिनांक 15.9.60 एवं

118 दिनांक 29.12.2010

जल संसाधन विभाग बिहार पटना के पत्रांक 2-430/82 दिनांक 1.11.83 के द्वारा वाल्मी का मूल सृजन नवम्बर 1983 में विश्व बैंक की सहायता से संचालित बहुउद्देशीय सुवर्ण रेखा परियोजना के पदाधिकारियों को तकनीकी प्रशिक्षण देने एवं कृषि उत्पादकता में बढ़ौतरी लाने के उद्देश्य से उक्त परियोजना की एक इकाई के रूप में किया गया था। वाल्मी को नवम्बर 1999 में स्वशासी निकाय घोषित किया गया। इसका अंकेक्षण उपलब्ध/अभिलेखों के आधार पर सम्पन्न किया गया। संस्थान के स्थापनादि व्यय का वहन जल संसाधन विभाग बिहार, पटना से प्राप्त अनुदान राशि से होता है जिसका संचालन बचत बैंक खाता संख्या (पुराना)- 888 26230100005130 से होता है। कोषागार से निकासी नही होने के कारण कोषागार सत्यापन की आवश्यकता नही हुई। विभिन्न श्रोतो यथा गेस्ट हाउस, मकान किराया, छात्रवास, वाहन किराया आदि से मनी रसीद के जरिये राशि प्राप्त होती है। जिसका सत्यापन शत- प्रतिशत किया गया। व्यय पक्ष की जाँच में अन्य नियमों- निदेशों के अतिरिक्त संस्थान के वायलॉज (उप नियम) द्वारा प्रदत्त वित्तीय शक्ति सीमा एवं नियमों में शिथिलता का पूर्णतः ध्यान रखा गया।

(3) कार्यालय का कार्य क्षेत्र -

अभ्यन्ताओं एवं किसानों को प्रशिक्षण देना, डी0 पी0 आर0 बनाना, मिट्टी जाँच प्रयोगशाला।

(4) वित्तीय श्रोत — सरकारी अनुदान, आन्तरिक संसाधन

(5) कोषागार अभिलेख से सत्यापन की स्थिति —

कोषागार सत्यापन की आवश्यकता नहीं पाई गई।

(6) महालेखाकार के पूर्व निरीक्षण प्रतिवेदन के अनुपालन की स्थिति—

अनुपालन प्रतिवेदन अनुपलब्ध फलतः अनुपालन शून्य।

(7) वित्त (अंकेक्षण) विभाग के पूर्व अंकेक्षण प्रतिवेदन के अनुपालन की स्थिति—

अंकेक्षण प्रतिवेदन संख्या/वर्ष	अनुपालन भेजा गया	अनुपालन नहीं भेजा गया
95/03-04	5,10,11,14 एवं 15	8
11/04-05	3,6,8,9,10,11,12	2,4,5,7

(3) वित्तीय समीक्षा :-

(1) आवंटन की स्थिति में क्या आवंटन से अधिक की निकासी की गयी है — आवंटन शून्य।

(2) अनुदान की स्थिति — क्या अनुदान से अधिक राशि जो परिशिष्ट “ख” पर उल्लिखित है। का व्यय किया गया है— हाँ रुपये 3300268.00 अनुदान से सम्बन्धित आय व्यय विवरणी परिशिष्ट “ख” पर उल्लिखित है।

(3) प्राप्त अनुदान राशि का उपयोगिता प्रमाण— पत्र प्रशासी विभाग को प्रेषित किया गया था— हाँ

(4) रोकड़ पंजी में संवरण शेष नगद राशि के भौतिक सत्यापन की स्थिति — भौतिक सत्यापन किया गया।

रोकड़ पुस्त का निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी एवं रोकड़ पास से भौतिक सत्यापन कराया गया एवं सही पाया गया।

विवरणी निम्न प्रकार है —

(1) दिनांक 4.1.2011 को रोकड़ पंजी (बैंक कैश बुक) का संवरण शेष — 12744183.97

दिनांक 4.1.2011 को नगद राशि (कैश बुक) का संवरण शेष — 5294.35

(2) दिनांक 4.1.2011 को बैंक पास बुक का संवरण शेष (बैंक ऑफ बड़ौदा खाता सं0 (पुराना) —888

नया — 26230100005130 — 15786267.97

(3) दिनांक 4.1.2011 तक सूद की राशि जो पास बुक में था लेकिन

रोकड़ पंजी में नहीं था। – (–) 784438.00

(4) दिनांक 4.1.2011 तक बैंक क्वार्टर रेन्ट जो पास बुक में था लेकिन

रोकड़ पंजी में नहीं था – (–) 7488.00

(5) दिनांक 4.1.2011 तक निर्गत चेक लेकिन cleared नहीं हुआ था – (–) 2251923.00

(6) कुल योग (2 – (3+4+5)) – 12742418.97

(7) बैंक द्वारा काटा हुआ बैंकिंग चार्ज लेकिन कैश बुक में 4.1.11 तक प्रविष्टि नहीं –

(+) 1765.00

(8) रोकड़ पंजी (बैंक कैश बुक) का संवरण दिनांक 4.1.2011 (6+7)– 12744183.97

(9) नगद राशि (कैश बुक में) – 5294.35

दिनांक 31.3.2009 को रोकड़ पुस्त के संवरण शेष की स्थिति – 32045475.97

(1) विभिन्न कार्य के लिए/ सरकारी राशि – 12547790.98 विवरणी कंडिका – 'ग' पर द्रष्टव्य

(2) वाल्मी सोसायटी की राशि – 19497684.99

कुल योग – 32045475.97

(क) वाल्मी संस्थान को विभिन्न खाताओं में फिम्स डिपोजिट के रूप में 25.8.2010 तक रू0 64828589.00 है जिसका विवरण परिशिष्ट "घ" पर द्रष्टव्य है।

(4) अंकेक्षित कार्यालय के स्वीकृत/कार्यरत/रिक्त पदों का विवरण :-

स्वीकृत बल	कार्यरत बल	अधिक	कम
103	52	शून्य	51

स्वीकृत पद/कार्यरत पद रिक्त पद की विवरणी परिशिष्ट (ङ) पर द्रष्टव्य।

(5) अधिक भुगतान,रुपये 875.00 वसूली योग्य :-

(क) दिनांक 7.4.08 से 29.4.08 तक वाल्मी पटना में एम एस ऑफिस एवं प्रोजेक्ट प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने आए सहायक अभियंताओं में मो0 रज्जन शमीम का नाम अनुशिक्षित सूची में नहीं था। आकर्षण कैटरर के विपन्न संख्या 412 दिनांक 15.4.08 द्वारा इन्हे दिनांक 7.4.08 से 10.4.08 तक लंच की आपूर्ति दर्शायी गयी है, जो वास्तविकता से परे है। इन्हे प्रमाणक संख्या

BC/158 दिनांक 27.5.08 को चेक संख्या 501154 दिनांक 27.5.08 द्वारा सं० 5284.00 का भुगतान किया गया था।

अतः दिनांक 7.4.08 से 10.4.08 कुल 4 लंच = $4 \times 30 = \text{रु० } 120.00$ अनियमित भुगतान किया गया जो संबंधित व्यक्ति से वसूली योग्य है।

(ख) दिनांक 2.5.08 से 30.5.08 तक चलाये गए एम० एस० ऑफिस प्रशिक्षण प्रशिक्षा कार्यक्रम में भाग लेने आए श्री राम प्रवेश सिंह कनीय अभियंता गंगा सोन बाढ़ प्रमण्डल दीधा अनुपस्थिति पंजी के अनुसार 12.5.08 एवं 13.5.08 को उपस्थिति दर्ज करने के बाद मेडिकल आधार पर वापस चले गए थे। लेकिन आकर्षण कैटरर के विपत्र संख्या 432 दिनांक 4.6.08 द्वारा दिनांक 19.5.08 को एक लंच की आपूर्ति इनके नाम पर दिखलाया गया जो मान्य नहीं है इस प्रकार एक लंच की कीमत रु० 30.00 का अनियमित भुगतान संबंधित व्यक्ति से वसूली योग्य है। इनका भुगतान प्रमाणक संख्या BC/219 दिनांक 17.6.08 को किया गया था।

(ग) दिनांक 4.8.08 से 26.8.08 तक एम० एस० ऑफिस एवं प्रोजेक्ट प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुशंसित प्रशिक्षणार्थी में श्री राम नारायण मंडल को दो हस्ताक्षर उपस्थिति पंजी पर प्रतिदिन दिनांक 6.8.08 से 8.8.08 तक नास्ता, लंच, डीनर कॉलम में पाया गया। इनका हस्ताक्षर भी पूरा-पूरा नहीं मिलता है। आकर्षण कैटरर के विपत्र संख्या 480 दिनांक 25.8.08 से प्रमाणक संख्या BC/374 दिनांक 3.9.08 द्वारा सं० 3804.00 का भुगतान किया गया था।

इस प्रकार तीन दिन का एक व्यक्ति पर नास्ता भोजन का व्यय $3 \times 85 = 255.00$ वसूली योग्य है।

(घ) पत्रांक 2354 दिनांक 30.11.08 द्वारा दिनांक 10.11.08 से 28.11.08 तक एम० एस० ऑफिस एवं प्रोजेक्ट प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत अनुशंसित प्रशिक्षणार्थी श्री नित्यानन्द शर्मा उपस्थिति पंजी के अनुसार दिनांक 13.11.08 को अनुपस्थित थे। लेकिन आकर्षण कैटरर द्वारा इन्हे लंच आपूरित दिखाया गया जो मान्य नहीं है। अतः एक लंच की कीमत रु० 50.00 वसूली योग्य है। इनका भुगतान आकर्षण कैटरर के विपत्र संख्या 563 दिनांक 30.11.08 से प्रमाणक संख्या BC/174 दिनांक 17.12.08 को पाया गया।

(ङ) पी० आई० एम० प्रशिक्षण के अंकेक्षण क्रम में पाया गया कि दिनांक 9.4.08 से 11.4.08 के बीच 10 प्रशिक्षण एवं 15 प्रशिक्षणार्थी (किसान) सम्मिलित हुए थे। इन्हे 9.4.08 को 26 लंच एवं 10.4.08 को 27 लंच की आपूर्ति कैटरर के विपत्र संख्या 414 दिनांक 15.4.08 को दिखाया गया।

इस प्रकार प्रशिक्षण एवं किसानों की वास्तविक संख्या से दिनांक 9.4.08 को एक लंच एवं 10.4.08 को 2 लंच की अधिक आपूर्ति विपत्र पर पायी गयी। इस तरह आकर्षण कैटरर को तीन लंच = $3 \times 30 =$ रुपये 90.00 का अधिक भुगतान किया गया। कैटरर को प्रमाणक संख्या BC/160 दिनांक 23.5.08 को रु० 4718.00 का भुगतान किया गया।

(च) पी0 आई0 प्रशिक्षण में भुगतित विपत्रों के जाँच में पाया गया कि दिनांक 14.10.08 से 16.10.08 तक चले प्रशिक्षण में तीन व्यक्ति श्री अमरेन्द्र चौहान, मोहन सिंह श्री सियाराम सिंह, का नाम उपस्थिति में नहीं था। इस प्रशिक्षण में 5 कृषक और तीन संसाधन पुरुष सम्मिलित हुए। आकर्षण कैटरर के विपत्र सं0 542 दिनांक 27.10.08 में तीन व्यक्ति के नाम पर 13.10.08 शाम से 14.10.08 दोपहर तक डीनर, नास्त, लंच की आपूर्ति दिखायी गयी, इसका भुगतान प्रमाणक संख्या BC/556 दिनांक 4.12.08 को किया गया जो निम्न प्रकार पाया गया।

दिनांक	आपूर्ति भोजन	अदद	दर	राशि
13.10.08	डीनर	3	40	120.00
14.10.08	नास्ता	3	20	60.00
	लंच	3	50	150.00

कुल— 330.00

अतः उपर्युक्त अनियमित भुगतीत राशि रू0 कुल (120+30+255+50+90+330)= 875.00 रुपये सम्बन्धित दोषी उत्तरदायी व्यक्ति से वसूल कर वाल्मी के खाता में जमा करा दी जाय तथा फलाफल से वित्त (अंकेक्षण) विभाग बिहार, पटना को सूचित किया जाय।

(6) अनुमान्य श्रेणी के विरुद्ध यात्रा करने के कारण रू0 19128.00 वसूली योग्य :-

यात्रा भत्ता के जाँच क्रम में पाया गया कि श्री सुनील कुमार स0 अभि0 एफ एम आई एस कोषांग अनिशाबाद का मूल वेतन 12275/- पर वायुयान द्वारा पटना से हैदराबाद प्रशिक्षण हेतु राज्य से बाहर जाने के लिया यात्रा प्रधान सचिव कोषांग , सिंचाई विभाग, बिहार,पटना द्वारा अनुमोदित था जिसका कोषांग की संख्या 4808 दिनांक 11.12.07 था। यह आदेश यात्रा करने के एक महिना पहले दी गयी थी। इन्हें यात्रा अग्रिम रू0 24000/- दी गयी थी। इन्होंने वायुयान द्वारा इकोनोमिक क्लस में यात्रा किये थे जिसका आने जाने का विवरण 11370.00+11370.00=22740.00 भुगतान किये थे। इसकी प्रमाणक संख्या BC/69 दिनांक 7.5.08 कुल रुपये 23399.00 में दैनिक भत्ता एवं सड़क भत्ता सम्मिलित है। उक्त राशि का भुगतान किया गया है।

बिहार यात्रा भत्ता नियमवली के नियम 63 के अनुसार विशेष परिस्थिति में रुपये 12300/- से 16399.00 रू0 तक मूल वेतन पाने वाले अधिकारी ही विभागीय सचिव या विभागाध्यक्ष की अनुमति से ही यात्रा की जा सकती है। लेकिन श्री सुनील कुमार स0 अभि0 का मूल वेतन 12275/- ही था। अतः इन्हें वायुयान से यात्रा अनुमान्य नहीं होता है। इस स्थिति में रेल द्वारा एसी रटियर शयनयान या एसी0 कुरूपी यात्र की यात्रा अनुमान्य है। इस स्थिति में अनुमान्य यात्रा से अधिक की गई यात्रा व्यय की राशि वसूली योग्य है।

पटना से हैदराबाद	वायुयान किराया	रेल किराया प्रथम श्रेणी वातानुकूलित-II टायर	अन्तर राशि
	22740.00	3612.00	19128.00

(7) अधिक दर पर दैनिक भत्ता का भुगतान राशि 570.00 वसूली योग्य :-

यात्रा भत्ता के जाँच में पाया गया कि श्री शिवनन्दन ठाकुर कनीय अभियंता ए० आर० पी० बर्क सम्पन्न हरने हेतु वाल्मी पटना से दिनांक 3.5.03 को प्रस्थान कर गोपालगंज, मोतिहारी ,वाल्मीकि नगर आदि स्थानों पर कार्य किए एवं रात्रि विश्राम किया गया । 4.5.03 को वापस वाल्मी द्वारा।

पुनः 13.5.03 को वाल्मी पटना से 1.00 पी० एम० में प्रस्थान कर 26.5.03 को 11.00 ए० एम० में बाल्मीकि नगर आए 1 इस प्रकार कुल 2+13=15 दिन का दैनिक भत्ता 150/- की दर से इन्हें रू० 2250/- का भुगतान किया गया। विपत्र का कुल भुगतान रू० 2237.00 प्रमाणक संख्या 362 दिनांक 3.9.08 था।

पुनः 3.8.03 को वाल्मी पटना से 8.30 ए० एम में चलकर सिवान गोपालगंज में विश्राम करने के बाद वाल्मी पटना 8.8.03 को 7.45 ए० एम वापस आए। कुल 5 दिन का दैनिक भत्ता लिए लेकिन 1 दिन का दैनिक भत्ता 120.00 का भुगतान किया गया था। शेष चार दिन का दैनिक भत्ता 150/- की दर से लिया गया था इसके लिए कुल भुगतान 1098.00 पाया था जिसका प्रमाणक संख्या BC/368 दिनांक 3.9.08 था।

इस तरह 15+4=19 दिन का दैनिक भत्ता 150/- की दर से 2850.00 पाया गया। लेकिन इन्हें 19 दिन का 120/- की दर से कुल रू० 2280.00 का भुगतान किया जाना चाहिये था। अतः मान्य दर से अधिक दर पर किया गया भुगतीत राशि (2850.00-2280.00) =रू० 570.00 वसूली योग्य है।

विवरणी निम्न प्रकार है—

नाम/मूल वेतन	माह का नाम	प्रमाणक संख्या एवं भुगतान तिथि	विपत्र की कुल राशि	भुगतीत दैनिक भत्ता			देय दैनिक का भत्ता			अन्तर राशि
				दिन	दर	राशि	दिन	दर	राशि	
श्री शिवनन्दन ठाकुर 8150/-	मई 03	BC/362 /3.9.08	2237.00	15	150	2250	15	120	1800.00	450.00
	अगस्त 03	BC/368 3.9.08	1098.00	4	150	600	4	120	480.00	120.00

570.00

(8) किसानों के नाम पर आपूर्ति नास्ता रू0 2400.00 का अनियमित भुगतान वसूली योग्य :-

वर्ष 08-09 में काडा द्वारा प्रायोजित प्रशिक्षण भभुआ के चालिस किसानों को 14-16 जुलाई 2008 को दिया जाना निर्धारित था। लेकिन निर्धारित तिथि को एक भी किसान प्रशिक्षण में उपस्थित नहीं हुए। फलस्वरूप प्रशिक्षण कार्यक्रम स्थगित हो गयी। आकर्षण कैटरर द्वारा दिनांक 14.7.08 को 80 पैकेट नास्ता की आपूर्ति का विपत्र पाया गया। अंकेक्षण में कुछ स्थगित कार्यक्रम पर इस तरह की आपूर्ति नहीं पायी गयी।

इसका भुगतान आकर्षण कैटरर को विपत्र सं0 462 दिनांक 4.7.08 प्रमाणक संख्या BC/372 दिनांक 3.9.08 द्वारा रू0 2400.00 का भुगतान किया हुआ पाया गया। आकर्षण कैटरर उपलब्ध रहने के बावजूद पूर्व में खाद्य सामग्री लाकर रखना उचित नहीं है। इसतरह उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर उक्त भुगतीत राशि रू0 2400.00 अनियमित है।

अतः सम्बन्धित उत्तरदायी या दोषी व्यक्ति से उक्त अनियमित भुगतीत राशि रू0 2400.00 वसूल कर काडा के यूनिट में जमा करते हुए इसके प्रतिफल से वित्त (अंकेक्षण) विभाग बिहार, पटना को अवगत करायी जाय।

(9) रुपये 1350.00 का आपूरित लंच मद में अनियमित भुगतान वसूली योग्य :-

विशेष इंडक्सन कोर्स के विपत्रों के अंकेक्षण में पाया गया कि दिनांक 8.9.08 से 13.9.08 तक सम्पादित किए जाने वाले प्रशिक्षण में कुल 53 अभियंताओं की उपस्थिति पंजी एवं सम्बन्धित संचिका में पाया गया। लेकिन इस दिन 80 अभियंताओं को लंच की आपूर्ति आकर्षण कैटरर के विपत्र में पाया गया। संचिका से पता चलता है कि इस दिन 53 अभियंता का योगदान स्वीकृत हुआ था। अतः $80-53=27$ अभियंता पर लंच की आपूर्ति की गयी जो अनियमित है। इस तरह $27 \times 50 / =$ रू0 1350.00 का अनियमित भुगतान किया हुआ पाया गया। इसका भुगतान आकर्षण कैटरर को विपत्र संख्या 499 दिनांक 15.9.08 से प्रमाणक संख्या BC/411 दिनांक 26.9.08 से 4000 रूपया भुगतान किया गया था।

अतः उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर लंच में अनियमित भुगतीत राशि रू0 1350.00 सम्बन्धित उत्तरदायी या दोषी व्यक्ति से वसूली कर वाल्मी के खाता में जमा किया जाय एवं इसके फलाफल से वित्त (अंकेक्षण) विभाग बिहार, पटना को अवगत कराया जाय।

(10) आपूरित सामग्रियों पर बैट की कटौती नहीं किए जाने के कारण राशि 119099.00 राजस्व की क्षति :-

जाँच में पाया गया कि वर्ष 08-09 में आकर्षण कैटरिंग, कृष्णा एजेन्सीज, कयर बोर्ड, इन्द्रा रेफ्रिजेशन इत्यादि आपूर्तिकर्ताओं द्वारा विपत्र भुगतान के समय श्रोत से बैट की कटौती नहीं की गयी थी।

वाल्मी द्वारा प्रशिक्षणीयर्थियों एवं संसाधन पुरुषों तथा संलग्न कर्मचारियों को भोजनादि खाद्य सामग्री की आपूर्ति मेसर्स आकर्षण कैटरिंग पत्थर की मस्जिद दरगाह रोड पटना-6 वैट टिन न0 10123463007 ने किया है। इन्हे वाल्मी के कार्यालय आदेश सं0 158 भू वाल्मी पटना दिनांक 13.6.05 द्वारा आपूर्ति का आदेश दिया गया। पुनः विपार्ड वाल्मी कम्प्लेक्स के पत्रांक ए0 टी0 आई क्रय 03/2008/59 दिनांक 29.9.08 के आधार पर वाल्मी द्वारा ज्ञापांक 178 भू वाल्मी पटना दिनांक 30.9.08 द्वारा मेसर्स आकर्षण कैटरिंग पत्थर की मस्जिद दरगाह रोड पटना 6 को आपूर्ति का आदेश दिया गया था। विपार्ड के द्वारा प्रकाशित निविदा संख्या 3/2008 दिनांक 25.4.2008 के द्वारा निविदा के आधार पर वाल्मी ने आकर्षण कैटरर से एकराननामा किया था। विपार्ड के पत्रांक ए0 टी0 आई /क्रय/03/08/469 दिनांक 7.8.08 के अनुसार पारा (2) पर विपत्र के भुगतान पर कर काटकर भुगतान करने का प्रावधान था। लेकिन वाल्मी द्वारा कमी भी आकर्षण कैटरिंग से वैट की कटौती नहीं की गयी। अलवत्ता आयकर की कटौती पायी गयी।

वाल्मी द्वारा फर्नीचर, इलेक्ट्रिक, स्टेशनरी इत्यादि सामानों को निविदा के आधार पर खरीद नहीं करके सीधे बाजार से खरीद की गयी थी। नियमानुसार सामानों को निविदा के आधार पर सामानों का क्रय करना चाहिये था। वैट की राशि विभिन्न एजेन्सियों द्वारा काटी गयी थी। आपत्ति निर्गत करने के बावजूद भी विभिन्न एजेन्सियों द्वारा काटी गयी वैट की राशि सरकारी कोष में जमा की गयी या नहीं, कुछ भी नहीं बताया गया।

उल्लेखनीय है कि निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा वैट की कटौती नहीं किया जाना बिहार राज्य वैट एक्ट 2005 के सेक्सन 42 एवं 40 के नियम 30 एवं 28 के विरुद्ध है।

वैट की कटौती नहीं करने के कारण वित्तीय वर्ष 08-09 में रुपये 119099.00 की राजस्व की क्षति हुई, जिसका विवरण परिशिष्ट 'च' पर उल्लिखित है।

अतः उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर संभवान्वित उत्तरदायी एवं दोषी व्यक्ति से राजस्व की क्षति राशि रु0 119099.00 के सम्बन्ध में उचित कारवाई की जाय एवं फलाफल वित्त (अंकेक्षण) विभाग बिहार, पटना को अवगत कराया जाय।

(11) रॉयल्टी मद के लम्बित प्राप्ति राशि रुपये 2233.00 को कोषागार में जमा करने के सम्बन्ध में :-

लेजर पंजी के अंकेक्षण क्रम में पाया गया कि पूर्व से वर्ष 07-08 से आज तक वाल्मी के खाता में रॉयल्टी मद की लम्बित प्राप्ति राशि रु0 2230.00 पाया गया।

आपत्ति संख्या 17 दिनांक 1.6.2011 के द्वारा शीघ्र लम्बित प्राप्ति रॉयल्टी मद की राशि शीघ्र रॉयल्टी मद के शीर्ष में कोषागार में जमा करा दी जाय तथा प्रतिफल से वित्त (अंकेक्षण) विभाग बिहार, पटना को अवगत कराया जाय।

(12) अस्थायी अग्रिम की राशि रुपये 310662.69 असमायोजित :-

अभिश्रवों की जाँच क्रम में पाया गया कि वाल्मी के विभिन्न कार्मियों को हस्त प्राप्ति रसीद (हैड रसीद) पर आकस्मिक मद से कुल रू0 310662.69 का अग्रिम प्रदत्त है। हस्त प्राप्ति रसीद से पता चला कि संचालन सम्पोषण एवं छोटे- छोटे सामग्रियों के क्रय के निमित्त ये अग्रिम दिये गए थे, जिसका समायोजन अभिश्रव के द्वारा किया जाना था। अभी तक संगत विपत्र उपलब्ध नहीं है। इनके नाम के विरुद्ध ये राशि अद्यतन लम्बित है। यह वित्तीय अनियमितता है अबतक इनका समायोजन न होना अग्रिमों का निरुद्देश्य होना इंगित करता है और निरुद्देश्य अग्रिम अस्थायी गबन स्वरूप होता है। इसकी विवरणी परिशिष्ट 'छ' पर द्रष्टव्य। अभिश्रवों की आकस्मिक पंजी एवं अस्थायी अग्रिम पंजी संधारित न होने की स्थिति में इन अग्रिमों का प्रयोजन अस्पष्ट रहा। पूर्ण विवरणी परिशिष्ट "छ" पर द्रष्टव्य है। यह विवरणी लेजर पंजी के अग्रिम लेखा के संवरण शेष एवं उपलब्ध हस्त पावती रसीद के आधार पर तैयार किया गया है।

अतः वाल्मी को सुझाव दिया जाता है कि इस प्रकार के निष्प्रयोजन अग्रिमों के भुगतान पर तुरन्त रोक लगायी जाय। लम्बित अग्रिमों राशि रू0 310662.69 का शीघ्र समायोजन करायी जाय तथा समायोजन के संबंध में इसकी सूचना वित्त (अंकेक्षण) विभाग बिहार, पटना को दी जाय।

(13) यात्रा —भत्ता मद की अग्रिम राशि रू0 10935.00 असमायोजित :-

अभिलेखों के जाँच क्रम में पाया गया कि वाल्मी पटना के विभिन्न कार्मियों को कार्यालय कार्यार्थ भ्रमण हेतु कुल रू0 10935.00 का अग्रिम भुगतान दर्शाया गया था। जिसका समायोजन लम्बित था। इन अग्रिमों के औचित्य एवं वैधता हेतु इनका प्रयोजन एवं कार्यालय आदेश की प्रति की माँग की गयी जो अन्ततः अंकेक्षण में अनुपलब्ध रहा। पूर्ण विवरणी परिशिष्ट "ज" पर द्रष्टव्य है। यह विवरणी लेजर पंजी एवं लेजर पंजी के आधार पर तैयार की गयी है।

अतः वाल्मी को सुझाव दिया जाता है कि लम्बित यात्रा भत्ता का या तो विपत्र द्वारा समायोजन किया जाय या एक मुश्त राशि की वसूली संबंधित व्यक्तियों से की जाय। तत्सम्बन्धी कार्रवाई के प्रतिफल से वित्त (अंकेक्षण) विभाग बिहार, पटना को अवगत करायी जाय।

भाग— 2

(14) पंजियों एवं अभिलेखों का त्रुटिपूर्ण संधारण एवं सुझाव :-

अंकेक्षण में वाल्मी पटना लेखा संधारण में त्रुटियाँ पायी गयी। टी0 एण्ड पी0 की भंडार पंजी इनका संख्यात्मक लेखा आकस्मिक मद की भंडार पंजी, आकस्मिकता पंजी, अग्रिम पंजी में उद्देश्य का अभाव आदि कर संधारण नहीं होने के कारण विभिन्न प्रकार की वित्तीय अनियमितता की संभावना बढ़ी है। वाल्मी पटना निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति हेतु सभी संसाधनों से समृद्ध एवं आधार भूत संरचना से पूर्णतः सुसज्जित है। इनके पास काफी चल एवं अचल सम्पत्ति है। लेकिन चल एवं अचल सम्पत्ति जैसे महत्वपूर्ण अभिलेख अंकेक्षण में उपस्थापित नहीं किया गया। इस सम्बन्ध में निकाय का संज्ञान बिल्कुल मूक एवं उदासीन रहा। रोकड़ पंजी के संधारण में बिहार

कोषागार संहिता भाग-1 के नियम 86 एवं आकस्मिक अभिश्रवों के संधारण में नियम का स्पष्ट उलंघन है।

वाल्मी पटना को डी0 ए0 भी0 विद्यालय, बैंक ऑफ बड़ौदा से किए गए एकरारनामा के अनुसार किराया नहीं दे रहे हैं। इस पर पुर्नविचार करने की आवश्यकता है तथा एकरारनामा के शर्तों को सख्ती से पालन करना चाहिये। आवास संचिका से पता चला कि वाल्मी के आवासीय प्लैट में कुछ अवांक्षित व्यक्ति भी कब्जा जमाए हुए हैं। जिस पर सख्ती से कार्रवाई की आवश्यकता है।

एफ एम आई एस द्वारा वस्तुओं के खरीद की निर्धारित दर तालिका, स्टॉक पंजी एम0 बी0 प्राक्कलन आदि उपलब्ध नहीं कराने के कारण अंकेक्षण अधूरा रह जाता है।

ए एम सी में खुली निविदा प्रत्येक वर्ष करायी जानी चाहिये। इससे नयी दर का निर्धारण होता है तथा कार्य की उत्कृष्टता बनी रहेगी।

लेखा नियंत्रक
वित्त(अंकेक्षण)विभाग,बिहार पटना

मिलान एवं शुद्धिकर्ता का नाम

(1) शशि शेखर सिन्हा

(2)

“NISHU”

परिशिष्ट 'क' कंडिका 1'ट' से सम्बन्धित

प्रस्तुत अभिलेखों की सूची :-

वर्ष 08-09

1. बैंक कैश बुक
2. कैश बुक
3. जनरल बुक
4. लेजर बुक
5. चेक निर्गत पंजी
6. बैंक पास बुक खाता संख्या -888 (बैंक ऑफ बड़ौदा वाल्मी परिसर)
7. स्टॉक पंजी (कार्यलय)
8. स्टॉक पंजी (प्रशिक्षण)
9. मनी रसीद
10. बैंक जमा पर्ची
11. वेतन भुगतान पंजी
12. हस्त पावती फाइल
13. आंशिक मापी पुस्त
14. पी आई एम प्रशिक्षण संचिका
15. अभिश्रव
16. एम0 एस कम्प्यूटर एवं प्रोजेक्ट संचिका एवं उपस्थिति पंजी
17. इन्डमसन कोर्स संचिका एवं उपस्थिति पंजी
18. काडा से सम्बन्धित संचिका एवं उपस्थिति पंजी
19. पी आई एम प्रशिक्षण संचिका एवं उपस्थिति पंजी
20. अनिवार्य प्रशिक्षण संचिका एवं उपस्थिति पंजी
21. एफ0 एम0 आई एस संचिका (वाल्मी का)
22. सब लेजर पंजी
23. इम्प्रेस्ट एकाउण्ट
24. डी0 ए0 भी0 विद्यालय वाल्मी की संचिका
25. आई सी0 ए0 आर से सम्बन्धित संचिका
26. लौग बुक चार गाड़ी का
27. कम्प्यूटर सेस, लौग बुक पेट्रोल जेनेरेटर का

अप्रस्तुत अभिलेखों वर्ष – 08–09

1. छात्रावास आरक्षण पंजी
2. किसान भवन आरक्षण पंजी
3. सिंचाई हस्तक की स्टॉक पंजी
4. स्थायी स्टॉक पंजी
5. एफ0 एम0 आई0 एस0 की स्टॉक पंजी दर तालिका एम0 बी0 प्राक्कलन
6. वाहन इतिहास पंजी
7. बजट एलोकेशन पंजी
8. टी0 एण्ड पी0 की भंडार पंजी
9. जनरल (आकस्मिक) भंडार पंजी
10. अधिकांश सेवा पुस्त

**परिशिष्ट 'ख' कंडिका 3(ii) से सम्बन्धित
अनुदान से अधिक व्ययगत राशि की विवरणी वर्ष 08-09**

प्राप्त अनुदान वर्ष 08-09	व्यय	अधिक व्यय
200000000.00	वेतन — 18288670.00	3300268.00
	यात्रा भत्ता — 185227.00	
	कार्यालय व्यय — 92082.00	
	वर्दी — 13228.00	
	दूरभाष— 26490.00	
	अनुरक्षण— 4694571.00	
	योग— 23300268.00	

परिशिष्ट "ख" "1" कंडिका 3(ii) से संबंधित
आय- व्यय विवरणी वर्ष 2008-09

आय	राशि	व्यय	राशि	अभियुक्ति
बैंक कैश बुका का प्रा० शेष	29336791.97			
नगद (कैश कैश बुक का प्रा० शेष	73753.20			
क्वाटर रेंट	873884.00	वेतन	18288670.00	
एकमोडेशन चार्ज	52251.00	यात्रा भत्ता भुगतान	185227.00	
वेतन से वसूली	30993.00	कार्यालय आकस्मिकता	6350.00	
बी० ओ० क्यू० का कीमत	7000.00	1. कनभेयेन्स		
पी० आई० एस० बुक का कीमत	400.00	2. स्टेशनरी	28215.00	
सिंचाई हस्तक का कीमत	6300.00	3. उत्तम कर्मचारी पुरस्कार	3500.00	
परिवहन चार्ज	2712.00	4. डाक टिकट व्यय	6000.00	
कम्प्यूटर किराया	8968.00	5. मिसलेनियस व्यय	48017.00	
द्वितीय सिंचाई आयोग प्रतिवेदन कर	3000.00	वर्दी	13218.00	
सूचना अधिकार 05 का शुल्क	156.00	टेलीफोन	26490.00	
बैंक से सूद की राशि	1238832.00	मेटेनेन्स	228565.00	
प्रशिक्षण	432000.00	1. दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी का भुगतान	228565.00	
एफ० डी० आर०	4415833.00	2. सुरक्षा सेवाएँ	1040177.00	
नौबत पुर में ड्रेनेज सिस्टमवार	800000.00	3. बिजली विपत्र का भुगतान	2180561.00	
		4. कम्प्यूटर अपग्रेडेशन	503120.00	

D.P.R (डी0 पी0 आर0) बनाना		5. ए0 एम0 सी0 एक्वा गार्ड	3600.00	
के0 बी0 सी0 ए0 टी0	2122400.00	आर/एम वातानुकूलित	28439.00	
न्यायिक जाँच आयोग के लिए कोशी नदी का उडी मॉडल बनाना	681154.00	आर/एम लिफ्ट आर/ एम जेटोम्स मशीन	143540.00 142798.00	
कोशी नदी का सर्वेवर्क मॉडल	1500000.00	आर/एम संस्थान भवन	1119390.00	
सरकारी अनुदान	20000000.00	आर/एम हॉस्टल	7084.00	
मृत पचाने नदी का सर्वेवर्ष	3192000.00	आर/एम किसान भवन	4239.00	
अस्थायी अग्रिम	1841412.00	आर/एम गलियों के रोशनी पर	8249.00	
यात्रा अग्रिम	117324.00			
ई/एम	1000.00	आर/एम जलापूर्ति सिस्टम	61018.00	
लौहार अग्रिम	14100.00	आर/एम मशीन	34559.00	
वेतन अग्रिम	150.00	आर/एम बी0 आर0 ए0 पी0 6233	49731.00	
एफ0 एम0 आई0 एस0	9221.00	आर/एम बी0 आर0-1 ई 2609	64127.00	
		आर/एम बी0 पी0 क्यू 4067	19681.00	
		आर/एम बी0 आर0-1 एपी 5812	55693.00	
		पी0 आई0 एम प्रशिक्षण	769072.00	
		काडा प्रशिक्षण	254216.00	
		प्रिंटिंग	42871.00	
		के0 बी0 सी0 ए0 टी0	845172.00	
		टेक्निकल एक्स्पर्ट कमिटी/बाढ़ पर व्यय	152396.00	

		चान्दर रिजवायर	6318.00	
		एफ0 एम0 आई0 एस0	7413369.00	
		इफिसियेन्सी स्टडी वर्क	188879.00	
		समस्तीपुर के सुरक्षा तैयारी का डी0 पी0 आर	19413.00	
		हॉस्टल	104756.00	
		विधि व्यय	20953.00	
		मीन ऑफ डब्लू आर डिपार्टमेन्ट	369780.00	
		ऑडिट एकाउण्ट	9979.00	
		बैंक चार्ज	3690.00	
		त्यौहार अग्रिम	12000.00	
		अस्थायी अग्रिम	956292.00	
		यात्रा भत्ता अग्रिम	92000.00	
		ई/एम	99500.00	
		कुल योग	34660914.00	
		बैंक कैश बुक का संवरण शेष	32045475.97	
		नगद (कैश— कैश बुक) का संवरण शेष	55245.20	
		कुल योग	66761635.17	

परिशिष्ट 'ग' कंडिका 3 IX (i) से सम्बन्धित

विभिन्न कार्य के लिए सरकारी राशि के संवरण शेष की विवरणी :-

क्र० सं०	कार्य का नाम	दिनांक 31.3.09 के संवरण शेष
1	राज्य की नदियों को जोड़ना	73086.00
2	अनिवार्य प्रशिक्षण कार्यक्रम/प्रशिक्षण	684305.43
3	प्रायोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम जल रोड डिविजन	54721.00
4	इफिसियेन्सी स्टडी वर्क	99360.00
5	काँची वेयर प्रोजेक्ट	332724.99
6	चंदन प्रोजेक्ट	805601.35
7	काडा प्रायोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम	127089.00
8	बाढ़ क्षेत्र और सुरक्षा के लिए डी० पी० आर बनाना	946860.00
9	टेक्नीकल एम्पर्ट कमिटी	157092.70
10	राष्ट्रीय स्तर प्रशिक्षण कार्यक्रम 5.10 फरवरी 07	0.00
11	एफ एम आइ एस	564609.00
12	लैंड स्केपिंग वर्क धौर पुनपुन बैरेज	99980.00
13	प्रायोजित प्रशिक्षण बी० आर० सी०	2275.00
14	बी० पी० डी० पी० अनुदान (संवरण)	113960.55
15	विशेष प्रशिक्षण सहरसा में	17712.00
16	कॉन्ट्रेन्ट एडमिनिस्ट्रेशन	393000.00
17	पश्चिमी कोसी नहर परियोजना	300000.00
18	विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन	12000.00
19	तकनिकी मानव संसाधन व्यवस्था	22599.00
20	कृषि विज्ञान केन्द्र आरा का मूल्यांकन	4472.86
21	विभागीय प्रशिक्षणार्थी का प्रशिक्षण	36736.00
22	पम्पलेट्स	10425.00
23	लैंड स्केपिंग वर्क ऑफ दुर्गावती बाँध	44640.10
24	पी० आई० एम० किसान प्रशिक्षण स्काडा	16375.00
25	किसानों के लिए काडा प्रायोजित प्रशिक्षण	177784.00
26	नौबतपुर पटना मेंड्रेनेज सिस्टम का डी० पी० आर बनाना	800000.00
27	कोशी ब्रीच क्लोजर एडभाइजरी टीम	1277228.00
28	न्यायिक जाँच आयोग के लिए कोशी	681154.00

	नदी 3D मॉडल कंस्ट्रैक्शन (बनावट)	
29	मॉडल स्टडी के लिए कोशी नदी का सर्वे	1500000.00
30	मृत पंचाने नदी का सर्वे	3192000.00
		12547790.98

परिशिष्ट 'घ' कंडिका 3 IX (i) से सम्बन्धित

FDR OF WALMI

Sl.No	TDR NO./FDR NO.	In Name of WALMI	A/C	Period	Rate of Interest	Deposit Amount	Maturity Value	Date of Deposit	Date of Maturity	Remarks
1	TDR 96/AC.NO. 481428	WALMI	FDR A/C NO. 1354 LF 8/92	36 Months	8.25%	541665.00	692030.00	11/Mar/08	11/Mar/11	
2	TDR 96/AC.NO. 481429	WALMI	FDR A/C NO. 1355 L.F.NO.8/93	36 Months	8.25%	1354277.00	1730222.00	11/Mar/08	11/Mar/11	
3	TDR 96/AD.NO. 460571	WALMI	FDR/628 LFNO.3/76	36 Months	8.25%	3074171.00	3927557.00	4/Apr/08	4/Apr/11	
4	TDR 96/AD.NO. 460572	WALMI	FDR/629 L.F.NO.3/77	36 Months	8.85%	22035049.00	28652475.00	9/Jun/08	9/Jun/11	
5	TBM/TDR/2002/A .NO. 088612	WALMI	26230300002388	6 Years	8.50%	26652.00	34302.00	27/Mar/09	27/Mar/12	
6	TBM/TDR/2002/A .NO. 088662	WALMI	26230300002442	36 Months	7.25%	4500000.00	5582461.00	13/May/09	13/May/12	
7	TDR/2001 FA NO.907785	WALMI	1690/9/154	36 Months	5.50%	14940008.00	17600347.00	9/Apr/10	9/Apr/13	
8	TDR/2001/EA NO. 907629	WALMI	1542/9/6	36 Months	7.00%	2415595.00	2974659.00	27/Apr/10	27/Apr/13	
9	TDR/2001 FA NO. 136041	WALMI	26230300003024	36 Months	7.00%	5000000.00	6157197.00	3/May/10	3/May/13	
10	TDR/2001FA NO.136042	WALMI	26230300003025	36 Months	7.00%	5000000.00	6157197.00	3/May/10	3/May/13	
11	TDR/2001FA NO.907851	WALMI	1736/9/200/New AC/No. 3041737 RO1	36 Months	7.00%	660903.00	813862.00	15/May/10	15/May/13	
12	TDR/2001FA NO.	WALMI	1738/9/201/New AC/	36	7.00%	660903.00	813862.00	15/May/10	15/May/13	

	907852		NO.3041737 RO1	Months						
13	TDR/2001FA NO. 907853	WALMI	1738/9/202	36 Months	7.00%	2841424.00	3499041.00	24/May/10	24/May/13	
14	TDR/2001FA NO. 907900	WALMI	FDR/1778 LF.9/242	36 Months	7.25%	1777942.00	2205621.00	25/Aug/10	25/Aug/13	

Total-

64828589.00

परिशिष्ट (इ) कंडिका 4 से संबंधित

जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान फुलवारीशरीफ पटना के स्वीकृत/कार्यरत /रिक्तपदों की विवरणी

क्रमांक	पदनाम	स्वीकृत पदों की संख्या	कार्यरत पदों की सं०	रिक्त पदों की संख्या	अभियुक्ति
1	निदेशक (मुख्य अभियन्त)	1	1	0	
2	प्राध्यापक जल संसाधन अभियंत्रण	1	1	0	
3	रीडर रूपांकण	1	1	0	
4	रीडर जल विज्ञान	1	1	0	
5	रीडर जल उपयोग प्रबंधन	1	1	0	
6	सहायक प्राध्यापक रूपांकण	1	1	0	
7	सहायक प्राध्यापक जल विज्ञान	1	1	0	
8	सहायक प्राध्यापक जल उपयोग प्रबंधन	1	1	0	
9	प्राध्यापक जल निस्सरण एवं पर्यावरण	1	1	0	
10	रीडर जल निस्सरण	1	1	0	
11	रीडर पर्यावरण	1	1	0	
12	रीडर बाढ़ प्रबंधन	1	1	0	
13	रीडर, भूगर्भ जल विज्ञान	1	1	0	
14	सहायक प्राध्यापक जल निस्सरण	1	1	0	
15	सहायक प्राध्यापक पर्यावरण	1	1	0	
16	सहायक प्रबंधन प्राध्यापक बाढ़	1	1	0	
17	सहायक प्राध्यापक भूगर्भ जल विज्ञान	1	1	0	
18	प्राध्यापक एग्रोनोमी	1	0	1	
19	रीडर एग्रोनोमी	1	0	1	
20	रीडर एम्सटेशन	1	0	1	
21	रीडर, कृषि अभियंत्रण	1	0	1	
22	सहायक प्राध्यापक एग्रोनोमी	1	0	1	
23	सहायक प्राध्यापक एम्सटेशन	1	0	1	
24	प्राध्यापक विज्ञान एवं संगणक	1	1	0	
25	रीडर आई0 टी0	1	1	0	
26	रीडर सिस्टम मैनेजर	1	0	1	

27	सहायक प्राध्यापक आई0 टी0	1	0	1	
28	सहायक प्राध्यापक कम्प्यूटर सिस्टम एनासिस्ट	1	0	1	
29	सहायक प्राध्यापक कम्प्यूटर प्रोग्रामर	4	4	0	
30	प्राध्यापक सामाजिक विज्ञान	1	0	1	
31	रीडर सामाजिक विज्ञान	1	0	1	
32	रीडर, कृषि अर्थशास्त्र	1	0	1	
33	सहायक प्राध्यापक सामाजिक विज्ञान	1	0	1	
34	सहायक प्राध्यापक कृषि अर्थशास्त्र	1	0	1	
35	प्राध्यापक शोध ए0 आर0 पी0 एवं पी0 आई0 एम0	1	1	0	
36	रीडर पी0 आई0 एम0	1	1	0	
37	रीडर ए0 आर0 पी0 शोध	1	1	0	
38	सहायक प्राध्यापक, सिंचाई अभियंत्रण अर्थशास्त्र	1	1	0	
39	सहायक प्राध्यापक सिंचाई सामाजिक शास्त्र	1	1	0	
40	सहायक प्राध्यापक सिंचाई शोध	1	0	1	
41	सहायक प्राध्यापक ए0 आर0 पी0	1	0	1	
42	कनीय अभियंता	4	4	0	
43	भू संपदा पदाधिकारी	1	1	0	
44	सहायक अभियंता 1	1	1	0	
45	सहायक अभियंता 2	1	0	1	
46	कनीय अभियंता	4	2	2	
47	लेखा पदाधिकारी	1	1	0	
48	प्रशासी पदाधिकारी	1	0	1	
49	प्रयोगशाला सहायक	3	0	3	
50	निदेशक के निजी सहायक	1	0	1	
51	सहायक	2	1	1	
52	लेखा लिपिक	3	2	1	
53	रोकड़ पाल	1	1	0	
54	आशुटंकक	8	0	8	
55	टंकक	4	2	2	
56	डाटा इंट्री ऑपरेटर	4	1	3	

57	फोटोग्राफर	1	0	1	
58	चलक	4	1	3	
59	खानसामा	1	1	0	
60	दफ्तरी सह ट्रेजर गार्ड	1	0	1	
61	फोटो कापिस्ट	1	0	1	
62	अनुसेवक	12	6	6	
	कुल योग –	103	52	51	

वैट राशि का विवरणी

क्र0	विपत्र सं0 / दिनांक	आपूर्ति कर्ता का नाम पता	अग्रिम संख्या	भुगतान तिथि	समग्री का नाम	अदद	दर	कीमत	विपत्र का योग	वैट दर	वैट की राशि	अभ्युक्ति
1	415 / 15.4.08	आकर्षण कैटरिंग पत्थर की मस्जिद दरगाह रोड, पटना-06	BC / 161 27.5.08	27.5.08	चाय नास्ता दोपहार का भोजन रात्रि भोजन	150 — 40 —	2 / — 100 / —	300.00 — 4000.00 —	4300 /	12.5%		
2	414 / 15.4.08	“	BC / 160 27.5.08	27.5.08	चाय नास्ता दोपहार का भोजन रात्रि भोजन	224 50 76 33	2 / 20 / 30 / 30 /	448.00 1000.00 2280.00 990.00	4718 /			
3	413 / 15.4.08	“	BC / 159 27.8.08	27.5.08	चाय नास्ता दोपहार का भोजन रात्रि भोजन	194 21 67 18	2 / 20 / 30 / 30 /	388.00 420.00 2010.00 540.00	3358 /			
4	412 / 15.4.08	“	BC / 158 27.5.08	27.5.08	चाय नास्ता दोपहार का भोजन रात्रि भोजन	287 39 103 28	2 / 20 / 30 / 30 /	574.00 780.00 3090.00 840.00	5284 /			
5	403 / 31.3.09	“	BC / 157 27.5.08	27.5.08	चाय नास्ता दोपहार का भोजन रात्रि भोजन	287 27 108 34	2 / 20 / 30 / 30 /	574.00 540.00 3240.00 1020.00	5374 /			
6	402 / 31.3.09	“	BC / 156 27.5.08	27.5.08	चाय नास्ता दोपहार का भोजन रात्रि भोजन आदि तीन दिनों के लिए	35X3=1 50	150 /	15750. 00	15750 /			
7	398 / 15.3.08	“	BC / 155 27.5.08	27.5.08	चाय नास्ता दोपहार का भोजन रात्रि भोजन आदि तीन दिनों के लिए	33X3=9 9	150 /	14850. 00	14850 /			
8	441 / 17.6.08	“	BC / 247 27.6.08	27.6.08	चाय नास्ता दोपहार का भोजन रात्रि भोजन आदि तीन दिनों के लिए प्रथम दिन नास्त अंतिम दिन नास्ता	40X3=1 20 75 80	110 / 30 / 30 /	13200. 00 2250.00 2400.00	17850 /			
9	439 / 14.6.08	“	BC / 246 27.6.08	27.6.08	चाय नास्ता दोपहार का	96 24	2 / 20 /	192.00 480.00	2112 /			

					भोजन रात्रि भोजन	24 24	30 / 30 /	720.00 720.00				
10	438 / 14.6.08	“	BC / 245 27.6.08	27.6.08	चाय नास्ता दोपहार का भोजन रात्रि भोजन	376 102 105 90	2 / 20 / 30 / 30 /	752.00 2040.00 3150.00 2700.00	8642 /			
11	434 / 5.6.08	“	BC / 221 17.6.08	17.6.08	चाय नास्ता दोपहार का भोजन रात्रि भोजन	566 159 161 144	2 / 20 / 30 / 30 /	1132.00 3180.00 4830.00 4320.00	13462 /			
12	433 / 4.6.08	“	BC / 220 17.6.08	17.6.08	चाय नास्ता दोपहार का भोजन रात्रि भोजन	203 26 69 16	2 / 20 / 30 / 30 /	406.00 520.00 2070.00 480.00	3476 /			
13	432 / 4.6.08	“	BC / 219 17.6.08	17.6.08	चाय नास्ता दोपहार का भोजन रात्रि भोजन	564 116 175 102	2 / 20 / 30 / 30 /	1128.00 2320.00 5250.00 3060.00	11758 /			
14	407 / 4.4.08	“	BC / 200 6.6.08	6.6.08	चाय दोपहार का भोजन	84 42	2 / 30 /	168.00 1260.00	1428 /			
15	423 / 17.5.08	“	BC / 199 6.6.08	6.6.08	चाय नास्ता दोपहार का भोजन रात्रि भोजन	224 44 83 49	2 / 20 / 30 / 30 /	448.00 880.00 2490.00 1470.00	5280 /			
16	422 / 17.5.08	“	BC / 198 6.6.08	6.6.08	चाय नास्ता दोपहार का भोजन रात्रि भोजन	458 133 136 131	2 / 20 / 30 / 30 /	916.00 2660.00 4080.00 3930.00	11586 /			
17	420 / 17.5.08	“	BC / 197 6.6.08	6.6.08	चाय नास्ता दोपहार का भोजन रात्रि भोजन	156 24 54 20	2 / 20 / 30 / 30 /	312.00 480.00 1620.00 600.00	3012 /			
18	298 / 299 13.5.08 13.5.08	“	BC / 196 6.6.08	6.6.08	चाय नास्ता दोपहार का भोजन रात्रि भोजन	1327 378 412 324	2 / 20 / 30 / 30 /	2654.00 7560.00 12360. 00 9720.00	32294 /			
19	425 / 23.5.08	“	BC / 195 6.6.08	6.6.08	चाय चाय / स्नैक दोपहार का भोजन	100 100 200	2 / 5 / 100 /	200.00 500.00 20000. 00	20700 /			
20	461 / 17.7.08	“	BC / 298 23.7.08	23.7.08	चाय नास्ता दोपहार का भोजन रात्रि भोजन	571 148 174 141	2 / 20 / 30 / 30 /	1142.00 2960.00 5220.00 4230.00	13552 /			
21	460 / 3.7.08	“	BC / 297 23.7.08	23.7.08	चाय नास्ता दोपहार का भोजन रात्रि भोजन	114 14 32 9	2 / 20 / 30 / 30 /	228.00 280.00 960.00 270.00	1738 /			
22	459 / 3.7.08	“	BC / 298 23.7.08	23.7.08	चाय दोपहार का भोजन	300 30	2 / 99 /	600.00 2970.00	3570 /			
23	450 / 2.7.08	“	BC / 295 23.7.08	23.7.08	चाय नास्ता दोपहार का	274 54	2 / 20 /	548.00 1080.00	4958 /			

					भोजन रात्रि भोजन	85 26	30 / 30 /	2550.00 780.00				
24	446 / 21.6.08	“	BC / 294 23.7.08	23.7.08	चाय नास्ता दोपहार का भोजन रात्रि भोजन	434 98 132 98	2 / 20 / 30 / 30 /	868.00 1960.00 3960.00 2940.00	9728 /			
25	466 / 29.7.08	“	BC / 328 7.8.08	7.8.08	चाय नास्ता दोपहार का भोजन रात्रि भोजन तीन दिनों का नास्ता पैकेट	23X3 =69 70	110 / 30 /	7590.00 2100.00	9690 /			
26	465 / 29.7.08	“	BC / 327 7.8.08	7.8.08	चाय नास्ता दोपहार का भोजन रात्रि भोजन	482 139 138 136	2 / 20 / 30 / 30 /	964.00 2780.00 4140.00 4080.00	11964 /			
27	464 / 29.7.08	“	BC / 326 7.8.08	7.8.08	चाय नास्ता दोपहार का भोजन रात्रि भोजन	758 170 223 138	2 / 20 / 30 / 30 /	1516.00 3400.00 6690.00 4140.00	15746 /			
28	463 / 17.7.08	“	BC / 325 7.8.08	7.8.08	चाय नास्ता दोपहार का भोजन रात्रि भोजन	573 159 159 157	2 / 20 / 30 / 30 /	1146.00 3180.00 4770.00 4710.00	13806 /			
29	528 / 11.1.08	“	BC / 508 18.11.08	18.11.08	चाय नास्ता दोपहार का भोजन रात्रि भोजन	350 62 100 48	2 / 20 / 30 / 30 /	700.00 1240.00 3000.00 1440.00	6380 /			
30	577,578 / 13.12. 08	“	BC / 589 30.12.08	30.12.08	नास्ता दोपहार का भोजन रात्रि भोजन	80+ 48 83+48 83+48	20 / 50 / 40 /	1600. 00+ 960.00 4150. 00+240 0.00 3320. 00+192 0.00	14350 /			
31	565	“	BC / 576	17.12.08	नास्ता दोपहार का भोजन रात्रि भोजन	11 50 40	20 / 50 / 5 /	220.00 2500.00 200.00	2920 /			
32	564	“	BC / 575	17.12.08	नास्ता दोपहार का भोजन रात्रि भोजन	18 28 14	20 / 50 / 40 /	360.00 1400.00 560.00	2320 /			
33	563	“	BC / 574	17.12.08	नास्ता दोपहार का	45 143	20 / 50 /	900.00 7150.00	9090 /			

					भोजन रात्रि भोजन	26	40 /	1040.00				
34	558	“	BC / 573	17.12.08	नास्ता दोपहार का भोजन रात्रि भोजन	20 30 11	20 / 50 / 40 /	400.00 1500.00 440.00	2340 /			
35	557	“	BC / 558	4.12.08	नास्ता दोपहार का भोजन रात्रि भोजन	101 237 97	20 / 50 / 40 /	2020.00 11850. 00 3880.00	17750 /			
36	543	“	BC / 557	4.12.08	नास्ता दोपहार का भोजन रात्रि भोजन	54 98 27	20 / 50 / 40 /	1080.00 4900.00 1080.00	7060 /			
37	542	“	BC / 556	4.12.08	नास्ता दोपहार का भोजन रात्रि भोजन	18 23 21	20 / 50 / 40 /	360.00 1150.00 840.00	2350 /			
38	589 / 2.11.09	“	BC / 637	28.1.09	नास्ता दोपहार का भोजन रात्रि भोजन	33 159 34	20 / 50 / 40 /	660.00 7950.00 1360.00	9970 /			
39	588 / 31.12.08	“	BC / 636	28.1.09	नास्ता+ दोपहार भोजन+ रात्रि भोजन तीन दिनों के लिए नास्ता पैकेट दि0 22.12. 08 नास्ता पैकेट दि0 24.12.08	14x3= 42 80 55	110 / 30 / 30 /	4620.00 2400.00 1650.00	8670 /			
40	591 / 8.1.09	“	BC / 635	28.1.09	नास्ता दोपहार भोजन एवं रात्रि भोजन तीन दिनो के लिए नास्ता पैकेट दि0 5.1.09 नास्ता पैकेट दि0 7.1.09	44x3= 72 80+80 =160	110 / 30 /	7920.00 4800.00	12720 /			
41	585 / 23.12.08	“	BC / 604	2.1.09	नास्ता दोपहार का भोजन रात्रि भोजन	9 67 05	20 / 50 / 40 /	180.00 3350.00 200.00	3730 /			
42	582 / 18.12.08	“	BC / 603	2.1.09	नास्ता दोपहार का भोजन रात्रि भोजन	179 213 159	20 / 50 / 40 /	3580.00 10650. 00 6360.00	20590 /			
43	601 / 23.1.09	“	BC / 692	25.2.09	नास्ता दोपहार का	90 92	20 / 50 /	1800.00 4600.00	9800 /			

					भोजन रात्रि भोजन	85	40 /	3400.00				
44	605 / 3.2.09	“	BC / 691	25.2.09	नास्ता दोपहार का भोजन रात्रि भोजन	147 164 94	20 / 50 / 40 /	2940.00 8200.00 3760.00	14900 /			
45	607 / 7.2.09	“	BC / 690	25.2.09	नास्ता दोपहार का भोजन एवं रात्रि भोजन तीन दिनों के लिए नास्ता पैकेट नास्ता पैकेट	23X3= 69 80 80	110 / 30 / 30 /	7590.00 2400.00 2400.00	12390 /			

कुल योग— 427316.00

क्र०	विपत्र सं० /	आपूर्ति कर्ता का नाम पता	अग्रिम संख्या	भुगतान तिथि	समग्री का नाम	अदद	दर	कीमत	विपत्र का	वैट दर	वैट की	अस्थिति
------	--------------	--------------------------	---------------	-------------	---------------	-----	----	------	-----------	--------	--------	---------

	दिनांक								योग		राशि	
1	A / 3897 11.5.08	गोविन्द की सेन्टर बोरिंग रोड कौसिंग पटना-1	BC / 139 16.5.08	16.5.08	एल0 जी0 2 टन स्पीलिट ए0 सी0 इस्टेबलाईजर के साथ	1 1	28500 5200	33700. 00	33700. 00	12. 5%	4212. 00	
2	P / G 0034 1.5.08	भारत कर्मशियल एजेंसी जीवन दीप एकजीबिशन रोड पटना।	BC / 30 2.5.08	2.5.08	एकजक्यूटिन चेयर्स मॉडल नं0 - PCH -9200 RH Model No- PCH 7003 D मेस्ट्रोडैस्क ERO	1 12 1	35862 6321 66831	35862. 00 81852. 00 66831. 00	184545 .00	12. 5%	2306 8.00	
3	133 / 23. 7.08	शुभ विजन टविन टविर हथवा दक्षिण गाँधी मैदान, पटना।	BC / 304 24.7.08	24.7.08	सेनी 26'' एल0 सी0 डी0 ब्रामिया टी0 भी0 एम0 न0 के0 एल0 भी0 -26-5.400 ए	1	34200	34200. 00	34200. 00	12. 5%	4275. 00	
4	401 / 23. 7.08	ईस्टर्न इलेक्ट्रीकल शिवहर सदन प्रजेर रोड पटना	BC / 305 24.7.08	24.7.08	इलेक्ट्रीकल समान			57537. 00	57537. 00	12. 5%	7192. 00	
5	009 / 3.6. 08	कृष्णा एजेन्सी स्टेशनस, बुद्धमार्ग पटना- 800001	BC / 191 6.6.08	6.6.08	स्टेशनरी का समान			99068. 30	99068. 32	12. 5% रु0 594 6/ पर 4% रु0 888 26 / रु0	743. 00 3553. 00	
6	0019 / 1. 12.08	कृष्णा एजेन्सी स्टेशनस, बुद्धमार्ग पटना- 800001	BC / 555	4.12.08	स्टेशनरी का समान			29842. 80	29842. 80	4%	1147. 80	
7	—	कृष्णा एजेन्सी स्टेशनस, बुद्धमार्ग पटना- 800001	BC / 554	4.12.08	जेरोक्स फॉटो पेपर D/4	200	146	29200. 00	30368. 00	4%	1168. 00	
8	132 / 7. 01.08	इंदिरा रेफ्रिजरेशन वर्क, राजेन्द्र पथ पटना PIN- 10102599083	BC / 18	22.4.08	ए0 सी0 हिटिंग एलिमेन्ट	3	1244.44	3733.32	4200. 00	12. 5%	466. 68	

9	131 / 4. 01.08	“	BC / 19	22.4.08	“	6	1244.44	7466.64	8400. 00	12. 5%	933. 00	
10	291 / 29. 2.08	आशियान रघुवीर पैलेस बोरिंग रोड पटना- 13	BC / 14	22.4.08	पी0 भी0 सी0 कारवर्ट पी0 भी0 सी0 कारवर्ट पार्सिंग चैनल तथा अन्य		30 6.50	5736.60 1242.93	7409. 39	4%	229. 00	
11	10853 / 8 .12.08	केयर बोर्ड	BC / 543	28.11.08	कर्मट कैयर मेटरेस 78'x36'x4"	10 पीस	3369	36006. 00	36006. 00	12. 5%	400. 00	
12	E771 / R 41 28.2.08	शार्प बिजनेस सिस्टम प्रा0 लि0 लोगिस्ट डिविजन टाइम्स ऑफ इन्डिया प्रेस कम्पलेक्स कंकड़बाग मेन रोड पटना	BC / 135	15.5.08	xR30xDLP DATA projector xR-301	3	48791.11	146373. 33		12. 5%	1829 6.67	

65684=15

अतः 53415+65684=15

119099=15

या 119099.00

परिशिष्ट 'छ' कंडिका 12 से सम्बन्धित

Date	Name	Post Name	Purpose of Advance	Advance amount	Adjusted Amount	Balance
22.07.2008	Muralidhar Singh	A.E			1448	
22.01.2009	Raj Kumar Gupta	A.E		2000	2000	
	Opening Balance			986978		
06.05.2008	Kaushal Kishore Mishra,	Under Secretary			954000	
14.08.2008	Kaushal Kishore Mishra,	Under Secretary			26472	
13.01.2009	Kaushal Kishore Mishra,	Under Secretary		100000		
	Total :-			1086978	980472	106506
10.04.2008	Nikhil Kumar	A.E	एफ0 एम0 आई0 एस0 कार्यशाला	37000		
02.05.2008	Nikhil Kumar	A.E	विविध कार्य	2000		
15.05.2008	Nikhil Kumar	A.E	एफ0 एम0 आई0 एस0 कार्यशाला	17000		
30.05.2008	Nikhil Kumar	A.E	स्काडा प्रशिक्षण के स्टेशनीरी सामग्री के क्रय हेतु।	10000		
02.06.2008	Nikhil Kumar	A.E	स्काडा प्रशिक्षण के स्टेशनीरी सामग्री के क्रय हेतु।	10000		

05.07.2008	Nikhil Kumar	A.E			15725	
10.07.2008	Nikhil Kumar	A.E	काडा प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षण के स्टेशनरी क्रय हेतु।	16000		
14.07.2008	Nikhil Kumar	A.E	मुख्य संस्थान भवन के बिजली के सामान एवं हाईजेनिक	18000		
17.07.2008	Nikhil Kumar	A.E	विविध कार्य।	3239		
22.07.2008	Nikhil Kumar	A.E			95527	
22.07.2008	Nikhil Kumar	A.E		65999.69		
24.07.2008	Nikhil Kumar	A.E	संस्थान भवन के जेनेरेटर संचालन हेतु।	2000		
25.07.2008	Nikhil Kumar	A.E	गाड़ियों के संचालन एवं संपोषण हेतु।	5000		
28.07.2008	Nikhil Kumar	A.E	मुख्य संस्थान भवन के बिजली मरम्मति तथा डिजल सेट	10000		
01.08.2008	Nikhil Kumar	A.E	वाहन संचालन एवं संपोषण हेतु।	11000		
11.08.2008	Nikhil Kumar	A.E	संस्थान भवन के विभिन्न संपोषण कार्य	8000		
11.08.2008	Nikhil Kumar	A.E	वाहन संचालन एवं संपोषण हेतु।	10000		
01.09.2008	Nikhil Kumar	A.E	स्पायरल बाईडिंग फोटोग्राफी के लिए	14000		

01.09.2008	Nikhil Kumar	A.E	वहनों के संचालन एवं संपोषण हेतु	10000		
01.09.2008	Nikhil Kumar	A.E	संस्थान भवन के संपोषण कार्य हेतु	5000		
09.09.2008	Nikhil Kumar	A.E	स्ट्रीट लाईट एवं जलपपूर्ति के संपोषण हेतु	2500		
09.09.2008	Nikhil Kumar	A.E	संस्थान भवन के संपोषण एवं गार्डन संपोषण हेतु।	7000		
18.09.2008	Nikhil Kumar	A.E			30955	
18.09.2008	Nikhil Kumar	A.E			34342	
27.10.2008	Nikhil Kumar	A.E	कोलनी के बिजली एवं पानी कार्य हेतु।	500		
13.11.2008	Nikhil Kumar	A.E			26074	
13.11.2008	Nikhil Kumar	A.E			43815	
13.11.2008	Nikhil Kumar	A.E			60126.69	
27.11.2008	Nikhil Kumar	A.E			2292	
	Total :-			264238.69	308856.69	
	Ooening Balance			57932		
	Total :-			322170.69	308856.69	13314
	Opening Balance					
16.9.08	Manish Kumar Manjul	A.E	वहनों के संचालन एवं संपोषण हेतु	10000		
18.09.2008	Manish Kumar Manjul	A.E	के0 बी0 कैट हेतु	20000		

22.09.2008	Manish Kumar Manjul	A.E	के० बी० कैट हेतु	4500		
24.09.2008	Manish Kumar Manjul	A.E	वाहनों के संचालन एवं संपोषण हेतु	10000		
25.09.2008	Manish Kumar Manjul	Control	के० बी० कैट हेतु	15000		
20.10.2008	Manish Kumar Manjul	A.E	संस्थान भवन के संपोषण कार्य हेतु	3000		
20.10.2008	Manish Kumar Manjul	A.E	वाहनों के संचालन एवं संपोषण हेतु	10000		
29.10.2008	Manish Kumar Manjul	A.E	के० बी० कैट हेतु	8000		
11.11.2008	Manish Kumar Manjul	A.E	वाहनों के संचालन एवं संपोषण हेतु	10000		
13.11.2008	Manish Kumar Manjul	A.E		60126.69		
20.11.2008	Manish Kumar Manjul	A.E	के० बी० कैट हेतु	25000		
20.11.2008	Manish Kumar Manjul	A.E	वाहनों के संचालन एवं संपोषण हेतु	10000		
04.12.2008	Manish Kumar Manjul	A.E	फोटोग्राफी के भुगतान हेतु	5000		
17.12.2008	Manish Kumar Manjul	A.E	वाहनों के संचालन एवं संपोषण हेतु	10000		
19.12.2008	Manish Kumar Manjul	A.E	काडा प्रशिक्षण पर व्यय हेतु	15000		
30.12.2008	Manish Kumar Manjul	A.E			41505	
30.12.2008	Manish Kumar Manjul	A.E	संस्थान भवन के रख-रखव हेतु	1000		
07.01.2009	Manish Kumar Manjul	A.E	वाहनों के संचालन एवं संपोषण हेतु	15000		

12.01.2009	Manish Kumar Manjul	A.E	कम्प्युटर के कार्टिज क्रय हेतु	6000		
12.01.2009	Manish Kumar Manjul	A.E	वाहनों के संचालन एवं संपोषण हेतु	10000		
20.01.2009	Manish Kumar Manjul	A.E			7558	
04.02.2009	Manish Kumar Manjul	A.E	काडा प्रशिक्षण स्टेशनरी सामग्री क्रय हेतु	12000		
18.02.2009	Manish Kumar Manjul	A.E			61831	
20.02.2009	Manish Kumar Manjul	A.E	वाहनों के संचालन एवं रख-रखाव हेतु	15000		
05.03.2009	Manish Kumar Manjul	A.E			8764	
05.03.2009	Manish Kumar Manjul	A.E			13796	
19.03.2009	Manish Kumar Manjul	A.E	के० बी० कैट हेतु	25000		
19.03.2009	Manish Kumar Manjul	A.E	वाहनों के संचालन एवं संपोषण हेतु	5000		
25.03.2009	Manish Kumar Manjul	A.E	वाहनों के संचालन एवं संपोषण हेतु	2000		
30.03.2009	Manish Kumar Manjul	A.E	कम्प्यूटर कार्टिज क्रय हेतु	1740		
31.03.2009	Manish Kumar Manjul	A.E			73589	
	Total :-			308366.69	207043	101323.69
04.12.2008	Ajay Kumar	A.E	ग्रील लगाने एवं अन्य संपोषण कार्य हेतु	5500.00		
16.12.2008	Ajay Kumar	A.E			2853	
29.01.2009	Ajay Kumar	A.E	कोलनी के सम्पोषण कार्य हेतु	1000.00		

04.02.2009	Ajay Kumar	A.E			1492	
19.03.2009	Ajay Kumar	A.E			6450	
30.03.2009	Ajay Kumar	A.E	संपोषण कार्य हेतु	500	6450	
	Total:-			7000	10795	
				13314		
				20314	10795	9519
03.01.2009	Balram Pd. Gupta	Asstt.Director	मृत पंचाने नदी के समेकित योजना योजना प्रतिवेदन तैयार करने हेतु	10000		10000.00
03.01.2009	Dipak Kumar	Asstt.Director	मृत पंचाने नदी के समेकित योजना योजना प्रतिवेदन तैयार करने हेतु	10000		10000.00
03.01.2009	Nawal Kishore Singh	Asstt.Director	मृत पंचाने नदी के समेकित योजना योजना प्रतिवेदन तैयार करने हेतु	10000		10000.00
03.01.2009	Mritunjay Singh	Dy.Director	मृत पंचाने नदी के समेकित योजना योजना प्रतिवेदन तैयार करने हेतु	20000		20000.00
03.01.2009	Parwez EQbal	Asstt.Director	मृत पंचाने नदी के समेकित योजना योजना प्रतिवेदन तैयार करने हेतु	10000		10000.00
03.01.2009	Ramesh Pd. Singh	Asstt.Director	मृत पंचाने नदी के समेकित योजना योजना प्रतिवेदन तैयार करने हेतु	10000		10000.00
03.01.2009	Vinay Kumar Sinha	Asstt.Director	मृत पंचाने नदी के समेकित योजना योजना प्रतिवेदन तैयार करने हेतु	10000		10000.00

कुल योग — 310662.69

परिशिष्ट 'ज' कंडिका 13 से सम्बन्धित

यात्रा भत्ता की अग्रिम राशि रुपये 10935.00 असमायोजित

क्रमांक	पदाधिकारी / कर्मचारी का नाम	पदनाम	अग्रिम औचित्य का	अग्रिम राशि
1	श्री शिवजी मिश्रा	कनीय अभियंता	अज्ञात	1000.00
2	श्री राम किशोर प्रसाद	सहायक अभियंता	अज्ञात	5000.00
3	श्री जितेन्द्र कुमार सिंह	रीडर	अज्ञात	3000.00
4	श्री मुरलीधर सिंह	सहायक अभियंता	अज्ञात	1935.00

कुल योग— 10935.00